

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2022 — भाद्रपद 4, शक 1944

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-11/आठ-परि./2022 .- राज्य शासन एतद्वारा प्रशासकीय विभाग छत्तीसगढ़ कार्यपालिक नियम (Rules of Business) 2009 भाग पांच-कार्यनियम-13-2 क. (एक) एवं (दो) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स संचालन को बढ़ावा देने हेतु यथा दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया (नान कामर्शियल), चार पहिया (कामर्शियल), माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के बैटरी चलित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) नीति लागू करता है।

यह नीति (पॉलिसी) अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 25th August 2022

NOTIFICATION

No. F 3-11/VIII-Trans./2022.- The State Government, hereby, In exercise of the powers conferred by Rules of Business of the executive Government of Chhattisgarh and Directions and Instructions issues under those rules 2009 Part V-Rules of Business-13-2A. (one) and (two) In order to promote the operation of electric vehicles in the state, such as two wheeler, three wheeler, four wheeler (non-commercial), four wheeler (commercial) goods carrier, passenger vehicle and other categories of battery operated, electric vehicle (EV) policy is implemented.

This policy will be effective from the date of publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-11/आठ-परि./2022 .- मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नवीन वाहनों (जीवनकाल कर देय समस्त वाहन) के पंजीकरण पर वर्तमान कर में 1% की वृद्धि करते हुए, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

द्वितीय अनुसूची के भाग-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“भाग-एक

स.क्र.	मोटर यानों का वर्णन	जीवनकाल कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	किसी भी प्रकार की लदान रहित वजन की संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकलें.	यान की कीमत का 8%
2.	किसी भी प्रकार की लदान रहित मोटर कारें— (क) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक नहीं है, (ख) जिनकी कीमत 5 लाख से अधिक है.	यान की कीमत का 9% यान की कीमत का 10%
3.	अशक्त यात्री गाड़ी.	रु. 360
4.	आटो-रिक्शा तिपहिया (लोक सेवा यान), जो किराया तथा पारितोषिक पर संचालित की जा रही है और 6 से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है— (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी विभिन्न योजनाओं तथा शर्तों, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए, के अधीन ऋण लेने के पश्चात्, क्रय किए गए तथा उसके स्वामित्व के यान. (ख) उपरोक्त उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा क्रय किए तथा उनके स्वामित्व के यान.	यान की कीमत का 3% यान की कीमत का 6%
5.	निजी उपयोग के लिए ओमनी बस, जिसके बैठने की क्षमता, (चालक को छोड़कर) 6 यात्रियों से अधिक तथा 12 यात्रियों तक हो.	यान की कीमत का 10%
6.	सकल यान भार 3500 कि.ग्रा. से अनधिक के मालयान, जिसकी कीमत— (क) रु. 2.5 लाख तक, (ख) रु. 2.5 लाख से अधिक.	यान की कीमत का 13% यान की कीमत का 11%
7.	तिपहिया आटो-रिक्शा से भिन्न मोटर-कैब अथवा मैक्सी-कैब.	यान की कीमत का 8%

8.	क्रेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन), जो सामान्य रूप से जेसीबी अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोदक मशीन के रूप में जानी जाती हो.	यान की कीमत का 8%”
----	--	--------------------

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 25th August 2022

NOTIFICATION

No. F 3-11/VIII-Trans./2022 .- In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), increasing the current tax by 1%, on registration of the new vehicles (all lifelong tax payable vehicles), namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Act,-

For Part-I of the Second Schedule, the following shall be substituted, namely:-

“PART-I

S.No.	Description of Motor Vehicles	Rate of Life Time Tax
(1)	(2)	(3)
1.	Motorcycles with or without attachment of any un-laden weights.	8% of the cost of the vehicle
2.	Motor cars of any un-laden weight- (a) Cost of which does not exceed Rs.5 lacs, (b) Cost of which exceed Rs.5 lacs.	9% of the cost of the vehicle 10% of the cost of the vehicle
3.	Invalid carriage.	Rs.360
4.	Auto-rickshaw three wheeler (public service vehicle) playing for hire and reward permitted to carry not more than 6 passengers - (a) Vehicle purchased after taking loans under various schemes and conditions as decided by the State Government from time to time and owned by any person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the minority community.	3% of the cost of the vehicle

	(b) Vehicles purchased and owned by persons other than those mentioned above.	6% of the cost of the vehicle
5.	Omni Bus for private use having seating capacity of more than 6 passengers and up to 12 passengers (excluding driver).	10% of the cost of the vehicle
6.	Goods carriage not more than 3500 kg. Gross vehicle weight, the cost of which- (a) up to Rs 2.5 lacs (b) more than Rs 2.5 lacs.	13% of the cost of the vehicle 11% of the cost of the vehicle
7.	Motor-cab or maxi-cab other than three wheeler auto-rickshaw.	8% of the cost of the vehicle
8.	Cranes and mechanical excavator vehicles, (working machines with front-rolling and rear-hand digging or otherwise installed), commonly known as excavators manufactured by JCB or other manufacturers.	8% cost of the vehicle"

This Notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.